

August 9, 2023

BSE Limited Floor 25, P. J. Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

Symbol: JUBLPHARMA

Scrip Code: 530019

Dear Sirs,

Sub.: Submission of Newspaper advertisements for $45^{\rm th}$ Annual General Meeting and e-voting information

In continuation of our letter dated August 8, 2023, we enclose copies of the advertisements published on August 9, 2023, in Mint (English) and Hindustan (Hindi), with respect to:

- completion of dispatch of Notice of 45th Annual General Meeting and Annual Report for FY 2022-23; and
- e-Voting information relating to the Annual General Meeting.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Pharmova Limited

Naresh Kapoor Company Secretary

Encl.: As above

A Jubilant Bhartia Company



Jubilant Pharmova Limited 1-A, Sector 16-A, Noida-201 301, UP, India Tel: +91 120 4361000 Fax: +91 120 4234895-96 www.jubilantpharmova.com Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223 UP, India CIN: L24116UP1978PLC004624





Maruti to buy Suzuki plant in Gujarat with shares, not cash

Issue of new shares for car plant will lead to equity dilution of around 4% for Maruti Suzuki

alisha.sachdev@livemint.com **NEW DELHI**

aruti Suzuki India Ltd (MSIL), the country's largest carmaker, said on Tuesday it will acquire Suzuki Motor Corp.'s small car manufacturing facility in Gujarat by issuing preferential shares instead of paying cash.

The issuance of new shares will lead to an equity dilution of around 4% in MSIL, and increase Suzuki's ownership in the New Delhi-based carmaker by 1.8% to 58.28%, based on the current market price and Suzuki Motor Gujarat (SMG) plant's book value of ₹12,755 crore.


Consequently, the unit will become a wholly-owned subsidiary of Maruti Suzuki, and its key management positions, some of which are currently held by Suzuki employees from Japan, will be taken over by the Indian team.

With this deal, Maruti Suzuki will aim to enhance its operational and organizational efficiencies, and double its manufacturing capacity by consolidating production within a single management

According to Maruti, the share swap approach will minimize adverse effects on earnings per share (EPS) and profits compared to a cash transaction, as it would have resulted in a loss of interest

To be sure, Maruti currently has cash reserves of about ₹46.800 crore.

The proposal for allotting preferential shares to the Japanese parent will be put to a vote before Maruti's minority shareholders at an extraordinary general meeting (EGM) in the future, the com-



"The reason behind preferential allotment of shares was that it will be far better for our shareholders," said R.C. Bhargava, chairman, Maruti Suzuki India

partner.

pany said in a regulatory filing.

Under a share-swap scenario, MSIL estimates a higher net profit each year until 2030-31, to over 3400 crore at the end of 2030. Besides, it also expects higher earnings per share and dividend

payouts with the share swap arrangement, relative to a cash buyout.

The calculations are based on assumption of Increase in Suzuki's 12.5% cumulative profit growth over the next decade, coupled with a 7% interest income. Suzuki has so far invested close to

₹18,000 crore in the Gujarat fac-

tory that can produce up to 750,000 cars per year. SMG's contract manufacturing arrangement with Maruti operates on a

no-profit, no-loss basis. On 1 August,

Maruti announced its intention to ter-

minate this arrangement, and secure full ownership of its contract manufacturing

The deal with Suzuki is likely to be completed by 31 March. "A quarter of MSIL's production is managed by SMG, which could cause complica-

tions in our management structure, going forward. Both SMC as well as MSIL agreed it is best if both production and production-related activities are brought under a single company," R.C. Bhargava, chairman, Maruti Šuzuki India, said at the time.

"In 2015, our shareholders had accepted (the option of SMC building the Gujarat factory) because it was clear that it would be of financial benefit to us. Besides the financial benefits, we had ₹5000-6000 crore extra profit because

time to build our own strength and our own organization because Suzuki did the work of erecting and commissioning the projects and running the plants and bringing in the kind of technology we needed. Now, we have reached a stage where we are a very different company We are already at 2 million cars in annual production capacity. We are moving towards 4 million cars. We have multiple technologies to handle today.. and many more different models to handle. We have electric vehicles, cars, and sport utility vehicles. We will have a much larger number of models by the time we get to 2030," he added.

we didn't invest our cash. We got the

"There is no single company under a ${
m single}\,{
m manage}$ ment that handles $4\,{
m mil}$ lion cars in the world. We have to reorganize Maruti to deal with the requirements of the management and technologies, which are to be faced in the next 10 years. It's not possible to efficiently work the whole system, and efficiently organize production, supply chain and everything, if one part of our production facilities are with a different company So, in order to facilitate our ability to reorganize everything in a manner that leads to smooth and efficient working in

future years, we decided to merge SMG with us. The reason behind preferential allotment of shares was chosen as a method of acquisition as it will be far better for our sharehold-

ers," Bhargava said. Analysts tracking Maruti Suzuki said the 4% dilution in equity isn't significant and the

impact on the company's share price since the announcement (down 2% in five days) has been fractional because the deal at book value ensures a fair transaction for all the minority share-

INDIA'S NO.1 UNIVERSITIES IN VARIOUS **STREAMS**

	STREAM	UNIVERSITY	RANK
	General (Govt.)	JNU, Delhi	#1
	General (Pvt.)	Amity University	#1
	Medical	AIIMS, Delhi	#1
	Technical	IIT Delhi	#1
	Law	NLSIU, Bengaluru	#1

As ranked in **India Today Best Universities** Survey

Published in issue dtd 14th Aug '23 (See Page No. 80)

UBILANT

PHARMOVA



BCCI paid tax of ₹1,159 crore in fiscal 2022

NEW DELHI

he Board of Control for Cricket in India (BCCI) has paid ₹1,159 crore higher than the previous year. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary gave details of the income tax paid by the BCCI and its income and expenditures in the last five years based on the returns

In the FY21, BCCI paid ₹844.92 crore in income tax, lower than ₹882.29 crore paid in FY20.

In FY19, the board paid ₹815.08 crore as taxes, higher than ₹596 63 crore in FY18 In FY22, BCCI had earned a

revenue of ₹7,606 crore, while its expenditure stood at close to ₹3,064 crore. In FY21, its income stood at

₹4,735 crore and expenditure at ₹3,080 crore.

New shows from Hindi GECs fail to click

lata.j@htlive.com **NEW DELHI**

Maruti after dea

he performance of Hindi General Entertainment Channel (GEC) offerings in recent times have witnessed muted response, with a majority of shows folding up within just three to six months, while established titles such as Anupamaa continued to dominate viewership rankings

Media consultancy Ormax said unaided awareness levels of premier Hindi GECs during their launch week have fallen by over 50% in the last decade.

Viewers are dissatisfied with the lack of fresh and engaging content, amid the rise of overthe-top (OTT) platforms offering abundant alternatives. Now users demand more even from traditional television

Since 2019, leading broadcasters have launched over 200 shows for the Hindi GEC segment, but less than 25% are on-air. Similarly, out of the over 130 shows that were launched since 2021, only around 40 are still on-air.



Now users demand more, even from traditional television channels

"Television will survive, but creators will have to look at the ideal mix of content that also brings in profits. For example, non-fiction is an extremely important part of the TV experience but broadcasters have to be judicious and see if it can be monetized. Fiction, on the other hand, engages different target groups, across regions and not just for Hindi. We've seen largely successful shows in regional languages," business head for SET, Hindi Movies, Sony SAB and Sony PAL,

Neeraj Vyas said.

With a post-covid revival in outdoor activities, along with a division in viewership extending across both digital and traditional platforms, the impact has been across all genres of shows, said Vibhu Agarwal, founder of OTT app Atrangii, which also owns TV channels.

Suzuki in the Guj

factory so far

'Television audiences are largely loval but the mentality has changed and a lot of shows are doing better as catch-up on streaming. Plus, (in case of new shows), while you can stretch a show for a couple of months, you can no longer have 500-1,000 episodes," he added.

Keerat Grewal, a partner at Ormax Media, agreed. According to the firm's weekly tracker of new Hindi GEC launches, the Unaided Awareness of top HGECs in launch weeks has dropped by over 50% over the last decade. "Simply put, this dip is indicative of viewer dissatisfaction with the category. With little content innovation and the perception of dragging serials looking like clones of one another, viewer satisfaction is continuously dipping since 2016. And a large con-

tributor to this issue is the category's dependence on unrealistic plot twists, to sustain the shows on a daily basis.'

Over time, audiences have rejected this approach as it has deviated from being purposeful narratives that could establish an emotional connection with them," Grewal added.

Broadcasters and platforms are also in a state of flux with all trying to woo viewers having a wide range of choices, while combating shifting sponsorship deals, Aradhana Bhola, managing director, Fremantle India, known for shows such as Indian Idol, said.

"The choice for viewers is abundant, with exposure to all types of content not just for mainstream Hindi, but also regional content that is gaining favour. Plus, international content is now available with dubbing or sub-titles. Viewer options have increased tre mendously. As content crea tors, we have got to be agile and adapt ideas and improve the production quality to compel viewers to choose our creations from among their many options," she added.

Astral Spirits aims to launch new brands in India

Varuni Khosla varuni.k@livemint.com

NEW DELHI

stral Alcobev Pvt. Ltd, the importer of bottled-in-origin Slovakian 'Skull X' vodka and Italymade 'Skinny Witch' prosecco brands, is looking to produce two new variants of its spirits now in India.

The company, which began with an investment of ₹6 crore in FY23, will now launch a domestic made vodka this month and a whisky in the coming months. The whisky is being blended by Surrinder Kumar, the master blender behind popular Indian whisky brands like Kamat and Amrut Indian Single Malt.

At present, the company imports products from different parts of Europe where it is



We expect our made-in-India whisky to contribute about ₹25 cr to the turnover, says Roshini Nath, chairperson, House of Skull X.

bottled and has sold about 6,000 cases of imported vodka and about 8,000 cases of its prosecco since company's inception in September 2022.

"We aim to capture a 10% market share of ultra-premium vodka & 15% market share of prosecco industries in India in the coming years with our imported variants. Our made-in-India whisky will be in three categories and we expect it to contribute about ₹25 crore to the turnover in the future," Roshini Nath, the chairperson of the company, told Mint.

retails in the markets of Delhi, UP, Haryana, Rajasthan and Punjab at around ₹4,500 for its vodka and around ₹3,000-3,300 for its proseccos. In next phase, the company will focus on markets like Goa, Maharashtra, Karnataka, Telangana, West Bengal and Tamil Nadu in the near future.

The company at present

The business was founded by British entrepreneur Aman Chopra, under the company 'House of Skull X', in 2014 and is a family run business out of Europe. The India business, Astral is headed by Nath and chief operating officer and director, Jessica Bedi.

The new India-made vodka for the domestic market is being produced in Puniab. through a spirits plant it has leased. After the launch of its vodka and whisky, it intends to delve into tequila, wine and gin business following which it will expand in 0% alcohol range beverages as well. Some of these spirits could be imported.

In recent months, India has announced a lot of new spirits and the volume consumption has surpassed pre-pandemic levels in 2022. The Indian alcoholic beverage market is experiencing intensifying rivalry spurred by the launch of several new spirits.

Since April this year, companies such as Radico Khaitan and Khemani Distilleries Pvt. Ltd and Allied Blenders & Distillers Ltd, NeuWorld Spirits Pvt. Ltd owned by Raj Niwas pan-masala owning company TRDP Group, have all launched a number of made-in-India spirits across categories such as whisky, gin, and rum.

Date: August 8, 2023

Place: Noida

Jubilant Pharmova Limited

(CIN: L24116UP1978PLC004624)

Phone: +91-5924-267437

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India E-mail: investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com

NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the $45^{\rm th}$ Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 31, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business as listed in the Notice dated May 29, 2023 in compliance with the circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as the 'MCA Circulars') and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred to as the 'SEBI Circulars'). The members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice convening 45th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on August 8, 2023, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants or Registrar and Transfer Agent ('RTA')

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is providing electronic voting ('e-Voting') facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL').

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Monday, August 28, 2023 and end at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 30, 2023; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 30, 2023; (c) No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (d) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Thursday. August 24. 2023. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Thursday, August 24, 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/ RTA. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30; (f) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not exercised their vote through remote e-voting, to cast their voting rights; (g) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again; (h) the Notice of the AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website www.jubilantpharmova.com at web-link https://www.jubilantpharmova.com/investors/financials/ annual-reports and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered:

- In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to
- b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound. Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India through e-mail at evoting@nsdl co.in or on Toll Free No.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or Mr. J.K. Singla, Deputy General Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anar Kali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India through email at rta@alankit.com or on Telephone No.: 011-42541234.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within 2 working days of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.jubilantpharmova.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges

For Jubilant Pharmova Limited


Naresh Kapoor **Company Secretary**

आशंका: दाल के दाम में बैंक की चुनौतियां बढ़ीं आ सकता है तेज उछाल

नर्ड दिल्ली, विशेष संवाददाता। खरीफ फसलों के ताजा आंकड़ों के मृताबिक दालों की बुआई का हिस्सा घटा है। इसके असर से आने वाले दिनों में दालों के दाम में तेज इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों को लगता है कि सरकार विदेश से दालों का आयात बढ़ाकर दाम काब में करने की कोशिश भी कर सकती है।

इक्रा रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में कमजोर मॉनसून के पूर्वानुमान के चलते खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के स्तर तक पहंचने के आसार धमिल हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ की फसल पिछले साल के मुकाबले फिलहाल मामुली पीछे है।

पिछले साल के 75.5 फीसदी के मुकाबले इस साल 75.3 फीसदी हिस्से में फसल बोई गई है। हालांकि, इसमें आने वाले दिनों में और कमी की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट के मताबिक मौसम विभाग ने अगस्त महीने में सामान्य से कुछ कम मॉनसून का पूर्वानुमान जताया है।



इन राज्यों में बुआई कम

खरीफ की कुल फसल में दालों का हिस्सा 11.3 फीसदी घटा है। वहीं, कपास की फसल एक फीसदी कम है। पिछले साल के मुकाबले बुआई 1.23 मिलियन हेक्टेयर में कम हुई है। राज्यों की बात की जाए तो यूपी, राजस्थान में बुआई बढ़ी है। वहीं, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में कमी आई है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ योगेंद कपूर ने 'हिन्दुस्तान' से कहा कि सरकार को हालात पर नजर बनाए रखते हुए जमाखोरी पर पहले से ही लगाम लगानी चाहिए ताकि दामों को गलत तरीके से न बढाया जा सके।

टमाटर के बाद प्याज के भाव में बढोतरी के आसार

नई दिल्ली, एजेंसी। टमाटर के बाद प्याज के भाव भी बढोतरी देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने प्याज के खुदरा भाव बढ़कर दोगुना होने की संभावना जताई है। इस माह प्रमख मंडियों में इसके थोक भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की कीमत 1370 रुपये से बढकर 1700 रुपये प्रति विवटल हो गई है। वहीं, दिल्ली की मंडियों में यह 1450 रुपये से बढकर 1850 रुपये प्रति क्विटल हो चुकी है। हालांकि, अभी प्याज की खुदरा कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ा है।

महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व

मौद्रिक समीक्षा नीति समिति की बैठक शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा 10 अगस्त को होगी। माना जा रहा है कि समिति इस बार भी प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखेगी। लेकिन महंगाई के मोर्च पर आरबीआई के लिए चिंता और चुनौती दोनों बढ़ सकती है।

छह फीसदी से ऊपर जा सकती है खुदरा मुद्रास्फीति: आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीते कुछ समय से खाने-पीने की वस्तुएं तेजी से महंगी हुई हैं। इसके चलते जुलाई महीने की खुदरा महंगाई दर में तेज वृद्धि हो सकती है और यह छह फीसदी से ऊपर जा सकती है। डॉयचे बैंक इंडिया के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो सकती है, जो जन में 4.8 प्रतिशत थी। इसमें करीब 1.90 प्रतिशत का उछाल आ सकता है। यह आरबीआई के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर है।

इन स्थितियों के चलते आरबीआई पर बढ़ती महंगाई का दबाव रहेगा और वह चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ा सकता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति

इन खाद्य वस्तुओं की कीमतों दाम में आई तेजी

मई से जुलाई के दौरान देशभर में औसतन खुदरा मुल्य में बढोतरी दर्ज की गईं।(आंकड़े % में)



मद्रास्फीति के आंकडों पर होती है मौद्रिक समीक्षा

रिजर्व बैंक खदरा मद्रास्फीति के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक समीक्षा करता है। उसने पिछले महीने की समीक्षा में रेपो दर को ६.५ प्रतिशत पर कायम रखा था। साथ ही अप्रैल-जून तिमाही में खदरा मुद्रास्फीति के 4 .6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया था।

को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत तक सीमित रखने का दायित्व सौंपा हुआ है।

निफ्टी 20,500 अंक तक पहुंचेगा

मुंबई, एजेंसी। बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) ने भारतीय शेयर बाजार के लिए अपने अनुमान को बढ़ाया है और दिसंबर तक एनएसई निफ्टी के 20.500 अंक तक पहुंचने की संभावना जताई है।

यह रिपोर्ट मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट के एक सप्ताह बाद आई है। उसमें भारतीय शेयर बाजार को एशिया के उभरते बाजारों में (जापान को छोड़कर) पहले पायदान पर आने की बात कही गई है। बोफा का मानना है कि बाजार को वित्तीय, औद्योगिक, वाहन, औषधि क्षेत्र के शेयरों में लिवाली से मजबती मिल रही है।

बिना दावे वाली राशि के नए नियम आएंगे

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक

सेबी निवेशकों की शेयर ब्रोकर के पास

पड़ी बिना दावे वाली राशि के निपटान को लेकर नियम जारी करने की योजना बना रहा है। इसके तहत ऐसे कारोबारी सदस्य पैसा लौटाने के लिये संबंधित निवेशकों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि प्रयासों के बावजद संबंधित ग्राहक/निवेशक का पता नहीं चल पाता है तो बिना टावे वाली गुणि को समय-समय पर शेयर बाजारों के निवेशक सुरक्षा कोष में अंतरण कर दिया जाएगा।

कार्य का नाम

ननसंपर्क अधिकारी (जल) द्वारा जारी

वज्ञापन सं. ज.सं.वि. 96/2023-24

181/

IUBILANT

ईई (डब्ल्युबी)-l के तहत इरादत नगर लेक को भरने हेतु ट्रीटेड

एफ्लुएंट ले जाने हेतु 900 मि.मी. डाया एमएस पाइप लाइन एवं

इस संबंध में अन्य विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in में देखे जा सकते हैं।

शेयर बाजार 🔳

65846-106.98

टॉप गेनर

कंपनी बदलाव%

1205.30 1.82 एसबीआई लाइफ 1354.1 3.96 हीरो मोटोको . 3069 .95 3 .92 1.34 टॉप लजर

अडानी एंटर. 2477.05 -2.88

455

कमोडिटी

बंद

416.55

241.50

1499.55

-2.62

-1.78

टॉप गेनर

टेक महिंद्रा

टॉप लुजर

पावर ग्रिड

एमएंडएम

कंपनी

विप्रो

बदलाव -80-800

ई-प्रापण हल में

तिथि एवं निविदा

आर्दडी सं

07.08.2023

ई-प्रापण हल के . जरिए निविदा की

प्राप्ति की अंतिम

तिथि एवं समय

28.08.2023 को

अप. 03.00 बजे

अधिशासी अभियंता (डब्ल्युबी)-

हिन्डाल्को

डॉलर/रुपया 82.84 -0.09

चीन के निर्यात में दो अंकों की गिरावट

बीजिंग। चीन का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर 14.5 प्रतिशत गिर गया इसके साथ ही सत्तारूढ कम्यनिस्ट पार्टी पर आर्थिक मंदी को दर करने का दबाव बढ गया है। सीमा शुल्क विभाग के मंगलवार को जारी आँकड़ों के मुताबिक जुलाई में निर्यात 14.5 प्रतिशत घटकर 281.8 अरब डॉलर रह गया

भारत ब्रिक्स स्टार्टअप मंच शुरू करेगा : गोयल

नई दिल्ली। भारत निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस साल ब्रिक्स स्टार्टअप मंच की शुरुआत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयुष गोयल ने यह बात कही। उन्होंने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की सातवीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल से देश में लगभग एक लाख स्टार्टअप का गठन हुआ है।

'देशकी आर्थिक वृद्धि दर सातफीसदी तक रहेगी'

कोलकाता. एजेंसी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने मंगलवार को कहा कि इस साल आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7.0 प्रतिशत के बीच होगी। हमने बुनियादी ढांचे में जो पर्व में निवेश किए, उसका फायदा अब

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की प्रमुख

सुचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियां

अगले पांच महीनों में करीब 50 हजार

फ्रेशर्स की भर्ती करने की तैयारी कर

रही हैं। ये भर्तियां इस क्षेत्र के आईटी

और गैर-आईटी दोनों श्रेणियों के लिए

टीमलीज एडटेक के सर्वे में इसका

खुलासा हुआ है। सर्वे में देश के 18

उद्योगों से जुड़ीं 737 छोटी, मध्यम

और बड़ी कंपनियों को शामिल किया

गया। इसके अनुसार जुलाई-दिसंबर

🔵 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रेणियां

बचपन की गलतियों के कारण

आयी सभी सेक्स समस्याओं के

समाधान के लिए हमारी सलाह

द्वारा दवा का सेवन करें और

सन्यासी आयुर्वेदा

• मंगोलपुरी • कॉलकाजी

फ्री सलाहॅं:©8527001155

व्यापार

🔵 ज्योतिष

कही न हो काम हमसे ले

A to Z समाधान घर बैठे

गुरु हसन बंगाली

तांत्रिक शक्तियों के बेताज बादशा

सौतन दुश्मन से छुटकारा, कारोबार, शादी ब

में अनबन, रूठों को मनाना,संतान प्राप्ति

🛑 ऋण/ आय

महाकोष फाइ नेंस,1 से 50 लाख

तक प्रॉपर्टी, एजुकेशन, बिजनेस,

पशुपाल,पर्सनल सभी लोन घर

बैठें पाये, ब्याज 2% छट 50%*#

8527685698,9868379762

तंत्र मंत्र के समाव

ਬਦ ਕੈਰੇ

द्वा

15 ही दिन में फर्क

मेडिकल

भारत को कम रेटिंग

संजीव सान्याल ने यह भी कहा कि वैश्विक साख मूल्यांकन एजेंसियों को

उद्योग मंडल भारत चैंबर ऑफ े ने कहा कि इस समय देश में वृहद

खाते का घाटा एक दायरे में है और विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर है। वैश्विक स्तर पर निराशाजनक परिदृश्य को देखते हुए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि बेहतर है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के आकार की बात की जाए, तो हम निश्चित रूप से जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएंगे।

'सरकारी बैंकों को सेवाएं बढ़ानी होंगी

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक समय से अपनाने के साथ ही ग्राहक कार्यभार का हवाला देते हुए यह समय-समय पर बदलने की जरूरत है, ताकि सही उम्मीदवारों का चयन पर बदलती रहती है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत वितरण खण्ड, बबराला के उपखण्ड, गवां, गुन्नौर एवं धनारी के कार्य क्षेत्र में जमा योजना के कार्यों जैसे कि विद्युत भार अवमुक्त करने एवं विद्युत भार बढ़ाने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि से नये सरकारी / गैर सरकारी विद्युत संयोजन अवमुक्त करने आदि कार्य रनिंग टेन्डर के माध्यम से कराये जाने का कार्य हेतु अल्पकालीन ई-निविदा संख्या 34 / 2023-24 आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 24.08.2023 को समय 13.00 बजे तक भरी जायेंगी तथा प्रथम भाग दिनांक 25.08.2023 को 12.00 बजे खोली जायेगी । निविदा की धरोहर राशि रू० 5000.00 है । निविदाओं की अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना https://etender.up.nic.in निगम की वेबसाईट www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन / विस्तार / सम्बन्धित सचना यदि कोई होगी तो वेबसाईट पर डाली गयी जायेगी अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत वितरण मण्डल सम्भल, (132 केवी विद्युत गृह परिसर, चन्दौसी), पत्रांकः-2274 /वि०वि०म०स० / दिनांक 08.08.2023, "राष्ट्रहित में

भारत को मौजूदा रेटिंग से कम से कम एक या दो श्रेणी ऊपर की रेटिंग देनी चाहिए। भारत को इन इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग बेतकी है। सान्याल ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग के संदर्भ में, यदि भारत को उचित रेटिंग दी जाए, तो इसे दो नहीं तो कम से कम एक श्रेणी ऊपर होना चाहिए।

कॉमर्स के एक कार्यक्रम में सान्याल आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता है। चाल

आईटी क्षेत्र 50 हजार फ्रेशर्स भर्ती करेगा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं बनेंगी

सर्वे के अनुसार, आईटी क्षेत्र के अलावा अगले छह महीनों में विनिर्माण, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, फॉर्मा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों के लिए नियुक्तियों में वृद्धि देखी जा सकती है। 5जी के तेज प्रसार से बडी दरसंचार कंपनियों में नए लोगों के लिए 1000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

कंपनियां का इरादा 73 फीसदी भर्तियां करने का है।

इनमें फ्रेशर्स की भर्तियां करीब 65 प्रतिशत तक होंगी। नई प्रतिभाओं की मांग जनवरी-जन के मुकाबले तीन फीसदी बढ़ी है।

🔵 ऋण/ आय

1% ब्याज

मार्कशीट, पर्सनल, पशुपालन

सभी ग्रुप लोन

1 लाख से 90 लाख तक

ज्योतिष

लोन ही लोन

<mark>ऑनलाईन सुविद्या</mark> एजेंट आमंत्रित

9310853688

ऑल इंडिया खुला चेलेंज

2घंटे में हर पेरशानी का घरबैठे सम्पूर्ण समाधान

बाबा सुल्तान मिज

कारोबार, शादी/प्यार में परेशानं

सौतन/दुश्मन से छुटकारा, गृहकलेश, पति-पत्नी के झगड़े, लवमैरिज, प्रोपटी,

कोर्ट-केस, गुप्त रोग, पुराना दर्द, दवा न लगना,

रे किए काम को काटे तो उसे मुंह मांगा ईन

स्पै. कालाजादू, गृहक्लेश व लव प्राब्ल

ऑल इण्डिया खुला वैलेंज

9971751650

हम कहते नहीं कर के

दिखाते हैं, 10 वर्षों से एक

ंही नाम और एक ही स्था

ष्ट मिलिक जी

के अनुसार, फ्रेशर्स की सबसे ज्यादा

इन क्षेत्रों में मिलेगा मौका : सर्वे

भर्तियां ई-कॉमर्स और आईटी स्टार्टअप (59%), दूरसंचार (53%), और इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर (50%) क्षेत्र के लिए होंगी। इनमें एसईओ ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्युटिंग जैसे कौशल वाले लोगों की मांग ज्यादा चांदी 800

नई दिल्ली। सोना 80 रुपये के नुकसान के मेरे लड़के के पुराने पासपोर्ट में

नाम Mohammad Hamdan था अब बदल कर Hamdan Ahmed. पुत्र मेहविश अहमद निवासी मकान नं.११६, एफ१० कासदी टोला प्रिंस रोड मुरादाबाद, रख लिया है भविष्य में नये नाम से जाना, पहचाता जारो। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता

है कि मैंने अपना नाम ९४४४४४४४ ALIAS BABU से बदल कर SHAHNAVAZ NOOR रख लिया है भविष्य में मझे इसी नाम से जाना को पहचाना जाए शाहनवाज नूर पुत्र मोहब्बत नूर निवासी बगीचा गाजी मुजफ्फर खोन जि. रामपुर मो. ६३९७०,४०१३

🔵 खोया- पाया

है कि मेरी हाईस्कूल कि वर्ष है। जिसका रोल नंबर ०७४०७५७ है जिन साहब को मिले निम्न पते पर पहुंचाने का कष्ट करें। निजाम पुत्र ऑशिफ 7900692645 नि

🌑 सार्वजनिक सुचना

करने वालों से सावधान 9760479949 7895889774 पता : नवीन नगर, पी.ए.सी. चौराहा, मुरादाबाद

आवश्यकता

शिक्षित . M/F घर बैठें दवा पैकिंग. 60K-95Kpm कमाए. NOC Charg 2150/-9433282649, 9040330547,

2023 के बीच स्टार्टअप सहित अन्य

Rampur- 8941002041

Sambhal- 9837693543, 9837099173

🔵 नाम परिवर्तन

रुपये लुढ़की सोना भी टूटा मंगलवार को साथ 60,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं, चांदी की कीमत भी ८०० रुपये

लुढ़ककर 74,000 रुपये प्रति किलोगाम रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के

चादी नुकसान

23 .09 डॉलर

होंडा ने नई

प्रति औस

रही।

बाइक

उतारी

होंडा

बाजार में

नई दिल्ली।

मोटरसाइकिल

मंगलवार को

मोटरसाइकिट

एसपी १६०

पेश की है.

जिसकी

दिल्ली में

शुरुआती

1.17.500

कंपनी ने कहा

रुपये है।

कि इसे दो

मॉडल में

उतारा गया है

अपनी नई

एंड स्कृटर

इंडिया ने

के साथ

साथ 1,932 डॉलर प्रति औस तथा

सर्वसाधारण को सचित किया जाता. 2020 की मार्कशीट कहीं खो गई ग्राम धनुपरा तह. टांडा जि. रामपुर

मेरे हाईस्कूल वर्ष 2017, अनु. 677187 के मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र खो गए है। कु साक्षी पुत्री नरेश् कुमार, गांव रजाकपुर, अमरोहा

चेतावनी कोठी मय आराजी स्थित मौहल्ला ताली ठाकुरद्वार 164 सन 2023 हरीश कमार गप्ता बनाम दिने कुमार गुप्ता आदि से तत्सम्बंधित मूलवाद ख्या 256 सन 2008 श्रीमती डोली व सचिन वारिसान दिनेश कुमार गुप्ता व श्रीमती सुशीला देवं पत्नी राजेन्द्र पाल आदि के विरुद्ध न्यायालय सिवि जज (सी०डी०) मुरादाबाद में लम्बित है। जिस रम्पत्ति को कार्ड भी व्यक्ति कय -विकय न क त्यराम सिंह व नदीम अहमद पत्र अजीज अहा पक्षकार के मुख्तारे आम नहीं है इनके द्वार

हरीश कुमार गुप्ता

क्षेत्र के बैंकों को नई तकनीक को

सेवा में बहुत तेज रहना होगा। एक संसदीय समिति ने बैंकों पर बढते बात कही। समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि बैंकरों के काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भर्ती परीक्षा की बनावट को भी किया जा सके। समिति ने कहा कि बैंकरों के लिए जरूरी गति और सटीकता की परिभाषा समय-समय

कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद

बिजली बचायें"

पत्रांक 311 / भ०क०ज०क० /न०नि०मु०/2023 दिनांक 08.08.2023

<u>-: सार्वजनिक सूचना :-</u>

नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के चालू गृहकर / जलकर की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की छूट 31 अगस्त, 2023 तक प्रदान की जा रही है। समस्त भवन स्वामी से अपील है कि अपने-अपने भवन के देय गृहकर / जलकर का नगर निगम के गृहकर काउन्टर, क्षेत्रीय कार्यालय अथवा सम्बन्धित क्षेत्रों में लगाये गये वसूली कैम्पों में 31 अगस्त, 2023 से पूर्व भुगतान कर छूट का लाभ उठायें।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, मुरादाबाद

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०

जी-4 / 5बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

<u>ई-निविदा सूचना</u> उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिंव द्वारा निम्नलिखित जनपदों में निर्माण कार्यों हेतु ईं–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित बिड डाक्यूमेन्ट, नियम/शर्ते वेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित सूचन विभागीय वेबसाइट www.uprnss.org पर भी देखी जा सकती है।

14*	मानाच वर्षताइट www.upinss.org पर ना देखा जा तकता है।				
क्र.	निविदा नोटिस संख्या	जनपद	निविदा अपलोड	कार्य का नाम	निविदा की
सं.		का नाम	करने की तिथि		लागत (रू०
					लाख में)
1	56/ E-TENDER/ UPRNSS/	रामपुर	10.08.2023	जनपद रामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहबाद	14.13
	2023-24 Dated 08.08.2023			में अग्निशमन यन्त्र की स्थापना का कार्य	
2	57/ E-TENDER/ UPRNSS/	रामपुर	10.08.2023	जनपद रामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलासपुर	17.07
	2023-24 Dated 08.08.2023	_		में अग्निशमन यन्त्र की स्थापना का कार्य	
3	58/ E-TENDER/ UPRNSS/	रामपुर	10.08.2023	जनपद रामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिलक में	14.13
	2023-24 Dated 08.08.2023			अग्निशमन यन्त्र की स्थापना का कार्य	
4	59/ E-TENDER/ UPRNSS/	मुरादाबाद	10.08.2023	जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड-मुरादाबाद में	7.48
	2023-24 Dated 08.08.2023			मोहब्बतपुर भगवन्तपुर बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण	
				सहकारी समिति लि० के 100 मै0 टन गोदाम की	
				मरम्मत का कार्य	
5	60/ E-TENDER/ UPRNSS/	मुरादाबाद	10.08.2023	जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड– डिलारी में	7.48
	2023-24 Dated 08.06.2023			सरकड़ा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति	
				लि० के 100 मै० टन गोदाम की मरम्मत का कार्य	

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR सिजुआ, डाक : डुमुडुमा, भुवनेश्वर -751019

रिक्ति सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा में नियमित आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

'नियमित आधार पर उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी की भर्ती" के संबंध में रिक्ति अधिसूचना सं. एम्स/भुवनेश्वर/भर्ती/जीपीश्एश/999/2455 दिनांक 7 पद अगस्त, 2023

विभागों, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, पात्रता मानदंड और अन्य नियमों एवं शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट https://aiimsbhubaneswar.nic.in देखें ।

उप निदेशक (प्रशासन) एम्स भुवनेश्वर

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड

(सीआईएनः L24116UP1978PLC004624)

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश ई–मेलः <u>investors@jubl.com</u>, वेबसाइटः <u>www.jubilantpharmova.com</u> PHARMOVA

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार कक्ष सं. 31. बी-बिल्डिंग. झंडेवालान. नर्ड दिल्ली-110005

प्रेस नि.आ.स. सं. 05/डब्ल्यबी-I/2023-24 अनमानित

/निविदा राशि

5. 2,86,72,184

धरोहर राशि

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बृहस्पतिवार, 31 अगस्त, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 (सामृहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पिठत SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (सामूहिक तौर पर 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम सं, 29 मई, 2023 की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित होना निर्धारित है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की इच्छा रखने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन कर एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं।

पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 45वीं एजीएम की आहूत सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट 8 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी गई हैं जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों अथवा रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 ('नियम') के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सुचीबद्धता विनियम') के विनियम 44 के अनुपालन में, कम्पनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपना वोट डालने हेतु सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई-वोटिंग') की सुविधा प्रदान कर रही है। तदनुसार, एजीएम की सूचना में दिए गए व्यवसाय के मदों का निष्पादन द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी और बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; (ख) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को सायं 5:00 बजे के उपरान्त नहीं दी जाएगी; (ग) पूर्वोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के पश्चात्, सदस्य को तदनन्तर इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (घ) ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 2023 तय की गई है। वोटिंग के अधिकार का आंकलन कट-ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर किया जाएगा; (ङ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 2023 तक शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, evoting@nsdl.co.in अथवा जारीकर्ता / आरटीए को एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेत् एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया हो, तो वह <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड" अथवा "फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अथवा एनएसडीएल को टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर संपर्क कर अपना पासवर्ड 'रीसेट' कर सकता है; (च) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उन सदस्यों को अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने हेतु उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला हो; (छ) वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल दिया हो, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं परन्तु अपना ई-वोट पुनः डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे; (ज) एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.jubilantpharmova.com</u> पर वेबलिंक <u>https://www.jubilantpharmova.</u> com/investors/financials/annual-reports पर, तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

उन शेयरधारकों, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, ई-मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है: क) यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड

की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) <u>investors@jubl.com</u> अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर ई-मेल द्वारा भेजें। ख) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी (16-अंकीय डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16-अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति)

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, भारत से ई-मेल द्वारा <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 या श्री जे. के. सिंगला, उप महाप्रबंधक, मेसर्स अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड. 205–208. अनार कली कॉम्प्लेक्स. झंडेवालान एक्सटेंशन. नई दिल्ली–110055. भारत से <u>rta@alankit.com</u> पर ई-मेल के माध्यम से अथवा टेलीफोन नम्बर: 011-42541234 पर संपर्क कर सकते हैं। एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के 2 दिनों के अन्दर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के शीघ्र

> कृते जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड नरेश कपूर (कम्पनी सचिव)

दिनांकः ८ अगस्त, २०२३ स्थानः नोएडा

पश्चात् प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी संचारित किए जाएंगे।

<u>investors@jubl.com</u> अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर भेजें।

शोरूम कीमत